

**प्रेस विज्ञप्ति**

**जनपद बस्ती**

**दिनांक-18.10.2021**

**थाना कप्तानगंज पुलिस व एण्टी नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा पुलिस बल पर फायर कर भागने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक अदद विदेशी पिस्टल व एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद किया गया ।**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री आलोक प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री दिनेश चन्द चौधरी मय पुलिस बल व प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स टीम उ0नि0 श्री योगेश कुमार सिंह मय टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक-18.10.2021 को दुबौला चौराहे से गणेशपुर रोड पर लगभग एक किमी0 आगे स्थित नहर पुलिया से पुलिस बल द्वारा रोकने पर फायर कर भागने वाले 02 अभियुक्तों को एक अदद विदेशी पिस्टल व एक अदद तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

जिसके सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 253/2021 धारा 307 IPC, मु0अ0सं0 254/2021 धारा 3/25 Arms Act व मु0अ0सं0 255/2021 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायलय बस्ती रवाना किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. सुग्रीम कुमार यादव पुत्र भवानीफेर यादव निवासी ग्राम रैकवार पोस्ट दुबे दुबौली थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती उम्र 23 वर्ष ।
2. अनिल कुमार उर्फ लल्लू पुत्र आज्ञाराम निवासी ग्राम मरहा पोस्ट कटया थाना नगर जनपद बस्ती उम्र 27 वर्ष ।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद विदेशी पिस्टल व एक अदद तमंचा 315 बोर ।
2. एक अदद खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक-18.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री दिनेश चन्द्र चौधरी मय पुलिस बल, प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स टीम उ0नि0 श्री योगेश कुमार सिंह मय टीम व चौकी प्रभारी महाराजगंज उ0नि0 नारायण लाल श्रीवास्तव मय पुलिस बल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दुबौला चौराहे से गणेशपुर रोड पर लगभग एक किमी0 आगे स्थित नहर पुलिया से कुछ दूर पहले एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आते दिखायी दिये जिन्हें पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया जिस पर मोटरसाइकिल चालक द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस बल पर फायर करने के उपरांत मोटरसाइकिल पर सबसे पीछे बैठा व्यक्ति भी तमंचे से फायर कर दिया एवं मोटर साइकिल चालक द्वारा मोटरसाइकिल को मोड़कर पीछे भागने का प्रयास कर रहा था कि उसी दौरान मोटर साइकिल फिसल गई जिससे पीछे बैठे अभियुक्त नाम क्रमशः **1.** सुग्रीम कुमार यादव पुत्र भवानीफेर यादव **2.** अनिल कुमार उर्फ लल्लू पुत्र आज्ञाराम बदमाश मोटरसाइकिल से उतरकर भागते समय मोटरसाइकिल पर बीच में बैठा अभियुक्त भी अपने असलहे से पुलिस वालों पर फायर किया और मोटरसाइकिल चालक अकेले ही मोटरसाइकिल लेकर वापस गणेशपुर की तरफ भाग गया | दो बदमाश जो पैदल भाग रहे थे उनको घेराबंदी करके समय करीब 11:50 बजे पकड़ लिया गया |

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.** प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री दिनेश चन्द्र चौधरी जनपद बस्ती |
- 2.** प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स टीम उ0नि0 श्री योगेश कुमार सिंह जनपद बस्ती |
- 3.** चौकी प्रभारी महाराजगंज उ0नि0 नारायण लाल श्रीवास्तव थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |
- 4.** हे0का0 महेन्द्र यादव, का0 सर्वेश नायक, का0 रमेश कुमार गुप्ता एण्टी नारकोटिक्स टीम जनपद बस्ती |
- 5.** का0 कपीस राय, का0 राहुल सिंह, का0 विकास सैनी, का0 अर्जुन यादव थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |